

LE-149
B.A. L.L.B. (II SEMESTER)
Examination July-Aug.- 2022
Compulsory/Optional
Group -
Paper -

Name/Title of Paper – Special Contract-II
Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 100
[Minimum Pass Marks : 36

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note Answer all question. All question carry equal marks.

इकाई/Unit-1

1. क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित कीजिए। वर्तमान के वाणिज्यिक सौदों का सुगम बनाने में इसके महत्व को समझाइये।
Define contract of indemnity. Explain it's important to facilitate the transactions of commercial in present time.

अथवा/Or

क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित कीजिए। यह संविदा बीमा की संविदा से किस तरह भिन्न है? क्षतिपूर्तिकर्ता का क्या दायित्व है?

Define contract of indemnity. How it differ from contract of insurance? What is the liability of the indemnifier.

इकाई/Unit-2

2. चिरगामी प्रत्याभूति क्या है? यह कब निरसित की जा सकती है? इसके विखण्डन के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए।
What is continuing guarantee? When can it be revoked? Discuss the different mode of its revocation.

अथवा/Or

उपनिधान को परिभाषित कीजिए। इसके आवश्यक तत्व क्या हैं? किन परिस्थितियों में उपनिधान समापन किया जा सकता है?

Define bailment. What are its essential element. Unes what circumstances a bailment can be terminated?

इकाई/Unit-3

3. केता सावधान के नियम को अपवादों सहित समझाइये।
Explain the rule of caveat emptor with exceptions.

अथवा/Or

अदत्त विक्रेता से आपका क्या तात्पर्य है? केता एवं माल के विरुद्ध अदत्त विक्रेता के क्या अधिकार हैं?

What do you mean by unpaid seller? What are the rights of unpaid seller against layer and goods.

इकाई/Unit-4

4. साझेदारी की परिभाषा दीजिए। साझेदारी के अस्तित्व का अवधारणा आप कैसे करेंगे?
Give the definition of partnership. How will you determine the existence of partnership?

अथवा/Or

भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और दायित्व क्या हैं? समझाइए।

What are the mutual rights and liability of the partners? Explain.

इकाई/Unit-5

5. निम्न में से किसी एक वाद के तथ्य एवं विधि के प्रतिपादित सिद्धांत बताइये।
Describe the faceted principals of law laid down in one of cases.

1. कमिश्नर ऑफ़ इन्कम टैक्स बनाम मेसर्स ओम प्रकाश प्रेमचन्द्र कंपनी, इंदौर 1996, म.प्र. एल. जे. 876.
2. श्रीमती फुलझरी देवी बनाम मिठाई लाल एवं अन्य ए आई आर 1971, इलाहाबाद 494
1. Commissioner of income tax Vs M/s Omprakash Prem Chandra company, Indore (1996), MPLJ 876.
2. Smt. Phuljhadi Devi Vs Mithai Lal and others AIR 1971. Allahabad 794.